



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 3—नवम्बर 9, 2012 (कार्तिक 12, 1934)
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 3—NOVEMBER 9, 2012 (KARTIKA 12, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई, दिनांक 28 सितम्बर 2012

बैंपवि. सं. आरईटी. बीसी. 47/12.02. 001/2012-13--समय-समय पर यथासंशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा 19 नवम्बर 2009 की अधिसूचना बैंपवि. सं. आरईटी. बीसी. 61/12.02.001/2009-10 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह निर्दिष्ट करता है कि 11 अगस्त 2012 को प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र बैंक 08 सितम्बर 2009 की अधिसूचना बैंपवि. सं. आरईटी. बीसी. 40/12.02. 001/2009-10 में यथावर्णित आस्तियां भारत में बनाए रखेगा जिनका मूल्य किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में कुल निवल मांग और मीयादी देयताओं के 23 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

बी. महापात्र
कार्यपालक निदेशक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अहमदाबाद-380014, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

सं. 37/PTMR/SRS/Jamalpur/SMC/12--कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की

शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या पीटी-फाईल-यू-13-12/13/2005-पीटीएमआर (मैडी. 1) दिनांक 04.08.2008 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर(रों) को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, (गुजरात) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा मूल प्रमाणपत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :--

डॉक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉक्टर श्रीराम आर. सोनी पी.ओ.एम.आर.	11.12.2012 से 10.12.2013	जमालपुर अहमदाबाद गुजरात

एच. पी. सिंह
राज्य चिकित्सा आयुक्त

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 5 अक्टूबर 2012

सं. 13-32/2011-के.हो.प./के.हो.रे. भाग-II-नवीनीकरण 1993--केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (पंजीकरण) विनियम 1982 के विनियम 9 जिसे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 की 59वाँ) की धारा 21 एवं 15 के साथ पढ़ा जाए, पंजिका जिसे केन्द्रीय होम्योपैथी पंजिका के नाम से जाना जाता है। (जिसे भारत के राजपत्र में 02.01.1993 को प्रकाशित किया गया था एवं उक्त राजपत्र से हटायें नामों को भारत के राजपत्र दिनांक 09.08.2008 में छपा गया था) के कुछ पुनः स्थापित नामों को भारत के राजपत्र में, दिनांक अप्रैल 7-13, 2012 में की सूची को तारतम्यता में कुछ और नाम पुनः स्थापित कर साधारण सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं।

ललित वर्मा
रजिस्ट्रार

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता (क) निवास स्थान (ख) व्यवसाय	राज्य जिसमें रजिस्ट्रीकृत हैं तथा राज्य रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने वाला प्राधिकारी	राज्य रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रीकरण दिनांक	राज्य रजिस्ट्रार में दिया गया रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	यदि केन्द्रीय रजिस्ट्रार से हटाया गया है, तो उसकी तारीख और उसका/उसके कारण	टिप्पणियां मूल केन्द्रीय पंजिका भाग II जो 02.01.93 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था के क्र.सं./केन्द्रीय पंजिका जो अगस्त 9, 2008 में प्रकाशित हुआ था के क्र.सं.
266	डा० श्रीमति हरजिन्दर कौर	रजित सिंह	ग्राम, नया नगर, पो० सुबाथु, जिला- सोलन (हिमाचल प्रदेश)	हिमाचल प्रदेश	1.5.85	340		9874/8273
267	डा० मोहन लाल गुप्ता	जय भगवान	खंडला वाला पुराना बाजार, पो० कैराना, जिला- मुजफ्फर नगर (यू० पी०), पिन. 247714.	हरियाणा	18.11.77	2432		11667/9757
268	डा० मंगत राम लाम्बा	भगवान दास	मकान नं० 2104, सेक्टर 9, फरीदाबाद, हरियाणा	हरियाणा	1.12.76	488		11709/9789

269	डा० एफ० नोरुलहकलम	फकीर मोहम्मद	पेरुगलुर पो०, पुडुकोटई जिला— तमिलनाडू, पिन. 622203	तमिलनाडू	4.5.75	1674	16992/13590
270	डा० मोहिन्दर सिंह परवाना	भगत सिंह सैनी	मकान नं० 360, टिब्बा साहिब, डगना रोड होसियापुर (पंजाब)	पंजाब	16.2.76	2416	18020/14483
271	डा० अभिमन्यु पटेल	मकुनद्रम पटेल	ऐट/पो०. केन्चीपाना कैदा, जिला— सम्बलपुर, उड़ीसा	उड़ीसा	10.10.66	894	18039/14500
272	डा० अन्नतराव ब्रम्हाजी पटेल		ऐट/पो०. किनाये, मकान नं०. 210, गणेश मंदिर के पास, तालुक & जिला. बेलगम — 590018	कर्नाटक	6.7.68	802	18041/14502
273	डा० राम लाल पटेल	मारुति राम पटेल	ग्राम सोठी, पो०. सक्ती, जिला— जांजगीर चम्पा, (छत्तीसगढ़)	मध्य प्रदेश	28.2.62	2987	18072/14525
274	डा० श्यामा सुन्दर पथे	अर्जुनजा पथे	ऐट/पो०. टेन्टलिया, भाया— पोलासरा, जिला— गजम, उड़ीसा	उड़ीसा	11.1.72	48	18127/14570
275	डा० नरिन्दर कौर	भालखु सिंह	पावर हाउस रोड, जोसिन्दर नगर, मंडी	हिमाचल प्रदेश	5.10.85	873	18358/14772

276	डा० जी० परुमल	गोविन्दासमी नायकर वी०	1/15, कन्नामल गार्डन, प्रिया मेटुपल्लाम स्ट्रीट, कलाडीपेट, चेन्नई - 19	तमिलनाडू	9.5.75	1891		18441/14841
277	डा० परमार्थलिंगम पोनापन	परमार्थलिंगम एस०	89 पार्थसारथे नगर पुराना वशीरमणपेट, चेन्नई - 600021	तमिलनाडू	26.6.75	5342		18950/15321
278	डा० के० पोनीयन	कुन्धु बुध्वाथन नडार	बड़ाक्के अकारामिलई, कलाडीथाट्टमिलई, मरयापुरम, कन्याकुमारी जिला, पिन. 629162	तमिलनाडू	2.5.77	11313		18972/15346
279	डा० एल० पोन्समी	लक्ष्मणन नायकर	1/179, साउथ स्ट्रीट, इलियईरामपाणी पो०, विरुधुनगर जिला, तमिलनाडू - 626201	तमिलनाडू	27.1.97	1004		18987/15353
280	डा० प्रभाकर नरेश कुमार	मोहिन्दर लाल प्रभाकर	7/180, नानगल कोटली, गुरदासपुर (पंजाब)	पंजाब	31.5.75	1553		19072/15425
281	डा० एम० प्रभाकरण	मुथैया एस० पी०	4 ए, मेन बाजार चरणमहादेवी, त्रीउनीवीट (जिला)	तमिलनाडू	4.4.77	1682		19091/15440

282	डा० प्रधान गोलक चन्द्रा	ब्रुन्दावन प्रधान	ग्राम. ओडलगा, पो०. बटल सिंह, वाया. पीपली, जिला—पुरी, उड़ीसा	उड़ीसा	10.11.64	1338		19123/15466
283	डा० प्रधान रामचन्द्रा	श्री सनातन	ग्राम. बलिसाह पटना, पो० रायचक्रधरपुर, जिला—पुरी (उड़ीसा)	उड़ीसा	29.8.66	864		19142/15481
284	डा० प्रेम चन्द	लाल सिंह	ग्राम साहपुर इन्दरी (करनाल), हरियाणा	हरियाणा	24.2.77	758		19240/15564
285	डा० रविन्द्रन प्रेमसागर	के० वी० रविन्द्रन	874/I, पोस्ट ऑफिस अपस्टेयर्स, पोस्ट ऑफिस रोड, संकरी दूर्ग, 637301, तमिलनाडू	तमिलनाडू	7.4.76	291		19248/15571
286	डा० डी० रघोथामन	दुरइसामी	399 'डी', टाईप II, ब्लौक 29, नेरेली. 607807 तमिलनाडू	तमिलनाडू	26.6.75	3544		19603/15880
287	डा० राय दलजीत	दौलत राम	न्यू कालोनी धारीवाल, जिला—गुरदासपुर, स्टेट पंजाब	पंजाब	1.3.77	2968		19662/15934

288	डा० हेम राज	लेट. थरिया राम	जी० - 8/5, मालवीय नगर, नई दिल्ली. 17	हरियाणा	6.8.77	1435		19709/15976
289	डा० एस० राजारामणिकम	वी० श्रीएमितन पिल्लई	चेत्तीपुल्लम पो०, खरीयापटनम-एस० ओ० (पीन. 614806), वेदारमणियम तालुक, नगापट्टनम जिला	तमिलनाडू	26.4.76	10165		19972/16200
290	डा० एस० राजनगम	सनमुगम चेतीयार	नेहरू जी रोड, पोमाया गोमदानपट्टी, डी० न० 1715, थेनी- एलिनागरम, थेनी- जिला, 625531	तमिलनाडू	16.6.75	6751		20081/16295
291	डा० ए० रामालिंगम	अरुममुगम एस० पी०	8 ए, अम्मापेट मेन रोड, सेलम- 636001.	तमिलनाडू	29.6.75	3593		20633/16778
292	डा० ए० रामालिंगम	अरुमुगा वेलर	कलिदइक्कुरीची- 627416, अम्बासमुद्रम तालुक, त्रीउनवेली जिला, तमिलनाडू	तमिलनाडू	18.6.75	3988		20635/16780

293	डा० रामालिंगम एस०	सनमुगा मुडलियर	श्री सनमुगावैली हाम्यो डिस्पेंसरी, क्यालपट्टी वीराण्डी (पो०), टेनी जिला, 625534, तमिलनाडू	तमिलनाडू	27.1.77	1006		20693/16830
294	डा० एस० ई० रामालिंगम	एकमबरा मुडलियर	1/98, मीटु स्ट्रीट, सेमबकम चेंगलपट्टु तालुक, कॉचीपुरम जिला, 603108	तमिलनाडू	2.4.75	362		20695/16832
295	डा० राम स्वरूप	करतार चन्द	ग्राम. नागल, थिन्दल, तह. ग्रहशंकर, पो०. अजनोहा, जिला— होशियारपुर (पंजाब)	पंजाब	14.2.77	2872		21097/17185
296	डा० कपिला रघुनन्दा राव	कै० सी० वैकटा राव	प्लॉट न० 29, कविटयानगर, हैदराबाद जिला	आंध्र प्रदेश	5.8.75	3562		21703/17727
297	डा० रमेश कुमार शर्मा	शिव चन्द शर्मा	मकान नं० बी० III/368, संतान वाली गली, जनदन वाला रोड, बरनाला (148101), पंजाब	पंजाब	6.6.75	1490		25251/20866

298	डॉ० प्रेरणा ज्योति कैर सोधी	जे० एस० सोधी	मेन बाजार, जोगिन्दर नगर, जिला- मंडी (हिमाचल प्रदेश)	हिमाचल प्रदेश	11.5.85	364		27407/22754
299	डॉ० त्रिपाठी रामचन्द्रा	श्री काशीनाथ त्रिपाठी	प्लॉट न० 120/122, सत्यानगर, कालीमंदिर रोड, मुनेश्वर, जिला- खुर्दा, उड़ीसा, पिन. 751007	उड़ीसा	11.2.71	1504		29871/24964
300	डॉ० प्रकाश चन्द वर्मा	योग राम वर्मा	उल्ह्यू जेड 1673, II फ्लोर, जेल रोड, (पिछे कल्याण बेकरी), नागल राया, नई दिल्ली- 46	हरियाणा	24.2.77	937		31069/26004
301	डॉ० अरुण जैन	बी.आर. जैन	32-ए, बसन्त एवेन्यू, अमृतसर-143001 (पंजाब)	हिमाचल प्रदेश	15.7.85	545		7839/6563
302	डॉ० एम.वी. रमन	मनिका वलाल पी.	कश्मीरी पलायम, पुडुपई (पी.ओ.) तिरुपुर (डी.टी.) 638111	तमिलनाडू	29.06.1975	3573		20806/16930
303	डॉ० आर. रथिनम	रमन	पी. अनैईपलायम, मुदिकानम (पी.ओ.), करूर (डी.टी.) 630002	तमिलनाडू	29.11.1977	12635		21859/17871

304	डॉ० रविन्द्रा नाथ रॉय	डी.पी. रॉय	भवन सरकारन्डा बंगोली पारा, गली न०.1, बिलासपुर, 495001	मध्य प्रदेश	21.02.1973	5869		21991/17989
305	डॉ० पिनापला हरिमूणा रायलु	गोपाला राव पी.वी.	3-1-14, पुराने बस स्टैण्ड के पास, पोनूर, 522124	आन्ध्र प्रदेश	1.08.1975	3482		22033/18024
306	डॉ० कोटी रेड्डी पी.	रामी रेड्डी पी.	चेबरोल, गोपिननी वरे स्ट्रीट, चेबरोलू (पोस्ट), डोर न०.11-38, गुन्दुर जिला	आन्ध्र प्रदेश	25.04.1970	2719		22084/18070
307	डॉ० उज्जवल कुमार साहू	भहरमबार साहू	रेट/पोस्ट ऑफिस, तुरुमुंगा जिला कीनझार (उड़ीसा) पिन-758046	उड़ीसा	24.01.1970	1601		22597/18529
308	डॉ० बोदन सीएच. साकिया		धेमाजी होम्यो. सदन, पोस्ट ऑफिस. जिला-धेमाजी, असम, पिन-787057	असम	10.10.1974	1457		22666/18584
309	डॉ० इरुसु शैलेश्वर	ई. एल. रेड्डी	केनरा बैंक लेन, नारायणा गुडे, हैदराबाद-500029	आन्ध्र प्रदेश	8.05.1975	3584		22683/18600

310	डॉ० ओम प्रकाश सहगल	चरनजीत लाल सहगल	3, प्रीत नगर, अम्बाला कैन्ट-133001 (हरियाणा)	हरियाणा	16.08.1977	1744	23871/19661
311	डॉ० दीन दयाल शर्मा	गिरधारी लाल शर्मा	बी-85, श्याम नगर, जयपुर-302019	राजस्थान	5.02.1973	2387	24765/20447
312	डॉ० हरीश चन्द्रा शर्मा	धन राजी शर्मा	गौधी चौक, सुजान गढ़, राजस्थान 331507	राजस्थान	12.11.1971	912	24871/20542
313	डॉ० हरि पौल शर्मा	वी.आर. शर्मा	वी.पी.ओ. टिपर, तह. बरसर, जिला-हमीरपुर-174312, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	23.09.1985	781	24873/20543
314	डॉ० सतपाल शर्मा	शिव चरन दास	बागोवल गली मुकेशियन डी / होशियारपुर (पंजाब)	पंजाब	27.1.75	140	25377/20978
315	डॉ० सुकेश चन्द्र शर्मा	दौलत राम शर्मा	ग्राम एण्ड पोस्ट मेहंगरवाल, तहसील एण्ड जिला- होशियारपुर, (पंजाब)	पंजाब	12.12.1974	86	25452/21049

316	डॉ० अजैब सिंह	दया सिंह	ग्राम एण्ड पोस्ट ऑफिस रायकोट, ताजपुर चौक, जिला—लुधियाना (पंजाब)	पंजाब	18.07.1977	3957		25804/21348
317	डॉ० अमरजीत सिंह	कृपाल सिंह	श्री चन्द्र कलोनी, स्ट्रीट न०.1, तारन—तारन—143401 (पंजाब)	पंजाब	14/15.02.1977 6	2460		25838/21377
318	डॉ० जित सिंह	तुलसी दास	ग्राम एण्ड पोस्ट ऑफिस धरमपुर, तहसील हरोली, जिला—उना (हिमाचल प्रदेश)	पंजाब	29.1.75	157		26450/21916
319	डॉ० सतवीर सिंह	जुगल सिंह	ग्राम एण्ड पोस्ट ऑफिस भैसवाल कलौ, तहसील—गोहना, जिला—सोनीपत, हरियाणा—131409	हरियाणा	24.02.1977	1027		26946/22343
320	डॉ० सत्या प्रकाश श्रीवास्तव	ए.एल. श्रीवास्तव	मोहल्ला—गोपाल गढ़, आईस फैक्ट्री के पास, भरतपुर (राजस्थान)	राजस्थान	12.12.1971	1250		27944/23241
321	डॉ० पाल चन्दा	रूमाल सिंह	सी-9/92, यमुना विहार, दिल्ली-53	हरियाणा	6.8.77	1400		17236/13805

322	डॉ० नागपाल सुभाष चन्द्र	ओ.पी. नागपाल	बी-1/200, जनकपुरी, नई दिल्ली	पंजाब	24.6.75	1852		15851/12582
323	डॉ० अनगामुस्वामी एम.	जी.एन.पी. मुथुसामी	टी.एम.सी. 46/691, थाजहथूटीटली (एच) पुथुरकरा, अयानथोले पोस्ट ऑफिस थिसुर-680003, केरला	तमिलनाडू	15.04.75	1964		6647/5540
324	डॉ० ए.बी. प्रसादा राव	ए.बी. रामानिह	एच.नं.12-2-828/ए/23, अम्बा गार्डन्स, रेहदीपटनम, हैदराबाद-500028	आन्ध्र प्रदेश	5.8.75	3560		21565/17598
325	डॉ० कपालिया रघुनन्दा राव	के.सी. वेंकटा राव	प्लॉट नं० 29, काकतियानगर, येहदी पटनवी, हैदराबाद-500008	आन्ध्र प्रदेश	5.8.75	3562		21582/17615
326	डॉ० रातुरी आनंद स्वरूप	राम स्वरूप राथुरी	22, वनसथाली, बल्लुपुर, देहरादून (पाईन वूड के.जी. स्कूल के सामने) 248001	हरियाणा	8.11.77	2214		21931/17935
327	डॉ० जगदीश कुमार रोहिल्ला	गणपति सहाय रोहिल्ला	रोहिल्ला साइन्टीफिक वर्क्स, हिल रोड, अम्बाला कैन्ट	हरियाणा	2.9.1976	249		22230/18197

328	डॉ० ए. सथासिवम	अंगापा मुदली पी०	न्यू न०.167, ओल्ड न०. 92-बी, कुमान स्ट्रीट-1, सलेम-636001	तमिलनाडू	21.6.75	8981		23519/19344
329	डॉ० के. सेलवारज	करुपा गौडर	6/13 पालनी चैम्स नगर, फर्स्ट क्रॉस स्ट्रीट, रिजर्वलाईन, मदुरई-14	तमिलनाडू	16.5.77	11522		23961/19740
330	डॉ० बाबू लाल शर्मा	लोचन लाल शर्मा	ग्राम. सरई, पोस्ट. पिण्डरई, जिला-मण्डला	मध्य प्रदेश	2.5.61	2095		24623/20326
331	डॉ० अमरेश शर्मा	बी. शर्मा	जयराम भवन सेमेटरी रोड संजौली, शिमला-171006 (हिमाचल प्रदेश)	हिमाचल प्रदेश	15.7.85	542		24703/20392
332	डॉ० चन्द्र शर्मा	एस. एल. शर्मा	1872/ए-1 अशोक मार्ग, अन्ना सागर लिंक रोड, अजमेर (राजस्थान)	राजस्थान	10.11.21	305		24728/20416
333	डॉ० बालमुकुन्द शर्मा	पारस रा	ग्राम सकरी, पोस्ट ऑफिस रेहन, तहसील नुरपुर, जिला-कंगरा (हिमाचल प्रदेश)	हिमाचल प्रदेश	5.11.85	946		24637/20339
334	डॉ० धर्म प्रकाश शर्मा	श्री. धनी राम	ग्राम सिवाया पोस्ट ऑफिस मोदीपुरम (मेरठ)	हरियाणा	18.11.77	2372		24787/20467

335	डॉ० इन्द्रजीत शर्मा	सी. बी. शर्मा	623, सेरीसिली कालोनी, मानस होटल के पीछे, जवाहर नगर, जयपुर-302004	राजस्थान	10.11.71	412		24896/20563
336	डॉ० कनवाल कुमार शर्मा	एम. आर. अरें	वी.पी.ओ. चारतगढ़, तहसील एण्ड जिला उन्ना, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	28.6.85	517		24956/20615
337	डॉ० लाल चन्द शर्मा	जी. बी. शर्मा	सी/ओ व्यास मेडिकल डिस्पेंसरी (सूरज पोल गेट रोड), पोस्ट ऑफिस झालरापाटन, जिला—झलावर (राज.)—326023	राजस्थान	10.11.71	491		25013/20662
338	डॉ० ओ०पी० शर्मा	नंद लाल	76 एफ, न्यू मॉडल कालोनी, अम्बाला सिटी—134003, हरियाणा	हरियाणा	24.2.77	680		25116/20753
339	डॉ० प्रीतिम चन्द शर्मा	मनोहर लाल	ग्राम एण्ड पोस्ट ऑफिस जहु—176048 हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	14.3.84	30		25186/20810
340	डॉ० रघुनाथ सहाय शर्मा	पंडित प्रेम सिंह	107-ए, गुरु नानक कालोनी, संगरूर, पंजाब	पंजाब	10.2.75	270		25208/20829

341	डॉ० सदाजीत राम शर्मा	अनन्त राम शर्मा	हाउस न०.281, सेक्टर-डी, डिफेन्स कालोनी, पोस्ट ऑफिस काल्लरहेरी, अम्बाला कैन्ट-133001	पंजाब	1.6.77	3783	25352/20956
342	डॉ० सतिन्द्र पौल शर्मा	दुर्गा दास शर्मा	हाउस न०.3096, मोहल्ला सराय राज पुतन, पोस्ट ऑफिस नकोदर, जिला-जालंधर, पंजाब	पंजाब	24.5.77	3625	25373/20975
343	डॉ० शाम लाल शर्मा	पाला राम	ए-204, (ए ब्लॉक), जी.टी. रोड, न्यू अमृतसर, अमृतसर सिटी (पंजाब)	पंजाब	26.6.75	2329	25393/20993
344	डॉ० श्याम सुन्दर शर्मा	शिव भगवान शर्मा	फ्लैट न०.104, फर्स्ट फ्लोर, जगन्नाथ अपार्टमेंट, चौधरी बाजार, कटक-753001, ओडिसा	हरियाणा	8.11.77	1935	25424/21023
345	डॉ० सुदर्शन लाल शर्मा	राम लाल शर्मा	राम किशन होम्यो क्लीनिक, 12/8 बंगला स्ट्रीट, मण्डी (हिमाचल प्रदेश)	हरियाणा	5.4.78	2790	25447/21044

346	डॉ० हरेन्द्रा कुमार श्रीवास्तवा		भजनका मार्केट, क्रिस्वन बस्ती, गुवाहाटी-781005, असम	असम	20.8.76	1788		25629/21189
347	डॉ० दाल सिंह	मोती राम	ग्राम एण्ड पोस्ट ऑफिस गोलपुरा, जिला-कुरुक्षेत्रा, हरियाणा	हरियाणा	24.2.77	815		26045/21562
348	डॉ० धर्म सिंह	धनी राम	ग्राम बीन/कुथवार, पोस्ट ऑफिस कलाहोड, सुन्दर नगर मण्डी (हिमाचल प्रदेश)	हिमाचल प्रदेश	11.3.85	176		26089/21601
349	डॉ० गंगा सिंह	इन्द्र सिंह	मकान न०.11, ग्राम एण्ड पोस्ट, सुकैत्री, जिला-पंचकुला, हरियाणा	हरियाणा	2.9.76	232		26122/21634
350	डॉ० गुरुचरण सिंह	अया सिंह	ग्राम एण्ड पोस्ट ऑफिस नरवाना, जिला-जिंद, हरियाणा-126116	हरियाणा	29.12.75	33		26170/21676
351	डॉ० गुरदीप सिंह	मिहान सिंह	ग्राम सरकाला खुर्द, पोस्ट ऑफिस सरला कलौ, तहसील. राजपुरा, जिला-पटियाला	हरियाणा	8.11.77	2098		26179/21683

352	डॉ० हरि सिंह	साधु सिंह	मकान न० बी-एक्स एक्स-1732 न्यू प्रेम नगर, ओल्ड न० बी एक्स एक्स-1533/2, लुधियाना, पंजाब	पंजाब	12.2.75	885		26306/21791
353	डॉ० जगदीश सिंह	सेवा सिंह	मकान एण्ड पोस्ट ऑफिस बनखौरा, तहसील मलेरकोटला, जिला-संगरूर, पंजाब	पंजाब	11.1.78	4775		26380/21853
354	डॉ० जोगिन्द्र सिंह आजाद	सुरेन सिंह	गुरु नानक होम्यो. क्लीनिक ब्लॉक रोड, पुरानपुर, जिला-पीलीभीत, 262122	पंजाब	1.3.77	3408		26457/21923
355	डॉ० लक्षु सिंह	नौरंग सिंह	वी.पी.ओ. मनुरन, तहसी सुनम, जिला-संगरूर, पंजाब	पंजाब	26.12.77	4732		26579/22028
356	डॉ० लाल सिंह	मोती सिंह	वी.पी.ओ. बहादुरपुर (संगरूर) पंजाब	पंजाब	16.8.77	4298		26591/22040
357	डॉ० महावीर सिंह पनवार	लुग सिंह	डॉ० महावीर सिंह पनवार होम्यो. क्लीनिक आर. जेड-जे ब्लॉक-21/261, वेस्ट सागरपुर, न्यू दिल्ली-110046	हरियाणा	6.2.78	2744		26597/22044

358	डॉ० मान सिंह गुलेरिया	सुरम चन्द	ग्राम एण्ड पोस्ट ऑफिस डोल, तहसी जावली, जिला-कंगरा, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	29.9.85	818	26623/22064
359	डॉ० सरदारा सिंह	जीवन सिंह	ग्राम नदिअली, पोस्ट ऑफिस धरमगढ़, तहसी एण्ड जिला मोहाली (पंजाब)	पंजाब	11.3.78	4951	26930/22328
360	डॉ० सेवा सिंह	जोगिन्द्र सिंह	मकान न०.2, स्ट्रीट न०.1, न्यू सूरज गज-वेस्ट, नकोदर रोड, जालंधर-144001	पंजाब	29.4.75	1222	26966/22362
361	डॉ० शेर सिंह भारती	सोजु राम	ग्राम तरवाई, पोस्ट ऑफिस बीना, तहसील सदर, जिला-मण्डी (हिमाचल प्रदेश)	हिमाचल प्रदेश	22.4.85	231	26980/22375
362	डॉ० एन. एस. शिवाकुमार	एस. सुबिह	#51-6/96, जवाहर स्ट्रीट, रामनद जिला, परमाकुडी-623707, तमिलनाडू	तमिलनाडू	20.3.76	9777	27266/22627
363	डॉ० पी. सिवाशानमुगसुन्दरम	पेरुमल पी.	वैथियर थोटम, चन्द्रशेकरपुरम 637408, राशिपुरम टीके, नमककल डीटी, तमिलनाडू	तमिलनाडू	30.5.77	12114	27365/22718

364	डॉ० दौलत राम वर्मा	आर. एस. वर्मा	ग्राम एण्ड पोस्ट ऑफिस जुगी, सब तहसील निहरी, जिला-मण्डी, हिमाचल प्रदेश-175031	हिमाचल प्रदेश	15.3.84	53	31008/25955
365	डॉ० डी.एस.वी. नरसिमा वासुदेवा वर्मा	सत्यानारायण राजु	पोस्ट ऑफिस खण्डावली, पेरावली मण्डल, डब्ल्यू. जी. डीटी. ए.पी. 534330	आन्ध्र प्रदेश	15.4.71	2844	31058/25993
366	डॉ० रामचन्द्र वर्मा	चिराजनी लाल वर्मा	ओह पुरा, मथुरा रोड (हथरस)	हरियाणा	8.11.77	2269	31085/26018
367	डॉ० मरुथा वेद्रीवेल	मारुडु पिल्लई वी.	37, आर.एम.एस. कालोनी, मथूपट्टी, मदुरई-3	तमिलनाडू	17.5.77	11536	31129/26056
368	डॉ० इकबाल कृष्णन विग	देवी दास विग	25, ब्रिज नगर, जालंधर सिटी-144008	पंजाब	27.6.75	1883	31161/26087
369	डॉ० व्यास कैलाश चन्द्रा	लक्ष्मी नारायण	ग्राम एण्ड पोस्ट ऑफिस लेदगाँव, तहसील सरदारपुर, जिला-धार (मध्यप्रदेश)	मध्य प्रदेश	15.3.71	5319	31471/26311
370	डॉ० महावीर प्रसाद वाघवा	कन्शी राम	मकान न०.103/6 बावनी खेरा, जिला-भिवानी, हरियाणा	हरियाणा	30.12.76	583	31494/26329

371	डॉ० विनोद कुमार शर्मा	ईश्वर दत्ता शर्मा	सी/ओ एल.आई.सी. ऑफ इण्डिया, ई-3, सेक्टर-1, नोएडा-201301	हरियाणा	18.11.77	2531		11017/9265
372	डॉ० मल्लिक आनसर अहमद	बडियर, जमन मल्लिक	ग्राम एण्ड पोस्ट ऑफिस कुमिर मोरह, पी.एस. चांडीतलई, जिला-होगली	हरियाणा	7.12.77	2563		12224/10240
373	डॉ० बी. महबूब जॉन	बाबा जे.	132/302, न्यू वेस्ट एसटी, लाईन रोड, गुगत, सलेम-63006	तमिलनाडू	12.5.77	1580		13097/11019
374	डॉ० सत्या पाल रतन	बिसन चन्द	16-ए, झांग अपार्टमेन्ट, सेक्टर-13, रोहिणी, दिल्ली-110085	हरियाणा	2.9.76	374		21952/17954
375	डॉ० वी. सेलवारज	वीरासामी पी.	2/21, पुल्लापनिकनूर ग्राम, अनेयपलायम पोस्ट-637401, अदागलूर वाया, राशिपुरम तालुक, नमककल डीटी.	तमिलनाडू	30.5.77	12115		23986/19763
376	डॉ० लक्ष्मी नाथ शर्मा		सी/ओ अमाया होमियो. क्लीनिक, नियर रूपनगर पोस्ट ऑफिस, गुवाहाटी-781032, असम	असम	28.7.75	1564		25007/20659

377	डॉ० ओम प्रकाश शर्मा	स्व. मेला राम शर्मा	डॉ० ओ. पी. शर्मा क्लीनिक, अनिल भवन, फाजादिह, रायपुर (सी.जी.) 492001	मध्य प्रदेश	2.2.62	4264		25123/20760
378	डॉ. श्रीकृष्णा शर्मा	रनजीलाल शर्मा	42, केशवा नगर, अलवर (राजस्थान)-301001	राजस्थान	20.4.72	1500		25419/21018
379	डॉ० सुभाष चन्द्र शर्मा	बिसम्बर दास शर्मा	मकान न०.122, वार्ड-8, कृष्णा गली, मुकेशियन-144211, पंजाब	पंजाब	8.8.77	4284		25444/21041
380	डॉ० बखशिश सिंह	अमर सिंह	मकान न०.बी-34/120, मोह. राईका, कपूरथला (पंजाब)	पंजाब	27.6.75	2074		25918/21451
381	डॉ० बलवीर सिंह	सुन्दर सिंह	कनवर होम्स, डिस्पेंसरी, 243/4, पिली रोड, पटियाला	पंजाब	8.9.77	4549		25929/21461
382	डॉ० बलदेव सिंह	मुकुन्द सिंह	ग्राम गुरुसर, तहसील गिडरबाहा, जिला-मुक्तसर-152112, पंजाब	पंजाब	12.5.75	1227		25951/21481
383	डॉ० बलविन्दर सिंह	करतार सिंह	ग्राम एण्ड पोस्ट लेहल, व्हाया सिंह 141117, जिला-लुधियाना, पंजाब	पंजाब	13.2.75	956		25969/21498

384	डॉ० बसाखा सिंह	भाग सिंह	वी.पी.ओ. भाई रूपा, जिला-मटिण्डा (पंजाब)	पंजाब	26.3.75	1869		25976/21505
385	डॉ० बावा अजित सिंह	बवा लच्छमन सिंह	एच.एम-116, सेक्टर-60 (3 बी 1), एस.एस. नगर-160059, चंडीगढ़	पंजाब	22.12.75	2300		25978/21507
386	डॉ० भागवत सिंह	गुरबस सिंह	भागवत होम्यो. क्लीनिक, हाउस नं० 207, ग्राम एण्ड पोस्ट ऑफिस भासौर, तहसील धुरी, जिला-संगरूर	पंजाब	5.8.77	4165		25993/21520
387	डॉ० दलजीत सिंह	बच्चन सिंह	ग्राम इशरहेरी, पोस्ट ऑफिस खरिन्दवा, जिला-कुरुक्षेत्र	हरियाणा	5.4.77	1053		26061/21576
388	डॉ० दर्शन सिंह	सन्ता सिंह	मकान नं० 1908, सेक्टर-34-डी, चंडीगढ़, 160034	हरियाणा	12.5.77	1108		26071/21584
389	डॉ० गुरबक्स सिंह	सुन्दर सिंह	वी.पी.ओ. झल्ला, तहसील/जिला फतेहगढ़ साहिब	पंजाब	13.2.75	918		26155/21661
390	डॉ० गुरचरन सिंह	करतार सिंह	चरन होम्यो. क्लीनिक, नियर माता रानी मन्दिर एण्ड गुशाला रोड, रायकोट, जिला-लुधियाना (पंजाब)	पंजाब	31.8.77	4489		26167/21673

391	डॉ० जोगिन्दर सिंह सिद्धू	बन्त सिंह	वी.पी.ओ.-फरक्की, तहसील एण्ड जिला-बरनाला (पंजाब)	पंजाब	2.4.75	796		26474/21939
392	डॉ० मोहिन्दर सिंह धालीवाल	गुरदियाल सिंह	सी/ओ धालीवाल होम्योपैथिक क्लीनिक, थिण्ड पट्टी, नियर बस स्टैण्ड, धुरी रोड, शेरापुर, जिला-संगरूर (पंजाब) 148025	पंजाब	2.4.75	792		26673/22109
393	डॉ० मुकन्द सिंह	धन्ना सिंह	वी.पी.ओ. घामोर, तहसील-बालाचौर, जिला-नवनशहर (पंजाब)	पंजाब	9.3.78	4920		26693/22126
394	डॉ० नरंजन सिंह	धाकोर सिंह	वी.पी.ओ. बेहक खास, तहसील-फजिलका, जिला-फिरोजपुर	पंजाब	5.6.75	1461		26712/22141
395	डॉ० नरिन्द्र सिंह	गुरमुख सिंह	जे-89, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली	हरियाणा	6.8.77	1553		26722/22148
396	डॉ० पंचम सिंह	प्रीतम सिंह	ग्राम-अलल माजरा, पी.ओ. खान पुर गनडियन, तहसील-राजपुरा, वाया-कौली	पंजाब	3.2.75	237		26753/22175

397	डॉ० एल. सुब्रह्मनियम	लोगानाथन	नालूर पलायम, बन्दराकोटई-पोस्ट, पनरुटी-तालुक, कुडालोर जिला	तमिलनाडू	25.6.75	4457	28217/23491
398	डॉ० पी.एस. सुन्दरम	सुब्रामनिया अयर पी.के.	प्लॉट न०.2, साख्ती नगर, काकालुर एस्टेट-काकालुर, तिरुवल्लोर-डीटी. 602003	तमिलनाडू	20.7.75	4085	28632/23869
399	डॉ० जोगिन्दर पाल स्याल	लच्छमी नारायण स्याल	मकान न०.1579, पुराना गड़डा खाना, आर्य समाज के पास, पटियाला, पंजाब	पंजाब	8.8.77	4225	28955/24157
400	डॉ० फकर दीन तेली	फुसे खान तली	बी.पी.ओ.-देसनोक, वाया/तहसील- देसनोक, जिला-बीकानेर (राजस्थान)	राजस्थान	10.11.71	56	29014/24207
401	डॉ० वादिवेल ए.	अरुमुगनैकर के.	25/54, मिशन एसटी. बोयर लेन, तिरुपुर-641004, तिरुपुर डीटी.	तमिलनाडू	26.6.75	5236	30334/25364
402	डॉ० वशिष्ठ मारचू राम	सोहन राम	'निखिल धाम' ग्राम सियोगी, पोस्ट ऑफिस पनडोह, जिला-मण्डी-175124, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	29.4.85	289	30374/25401

403	डॉ० जी. वैकटाकृष्णन	गोपालारत्नम वी.	न्यू न० 17, सी.पी. कोविल स्ट्रीट, मयलापोर, चेन्नई-600004, तमिलनाडू	तमिलनाडू	24.3.75	56	30817/25795
404	डॉ० वैकटारमनाथ आर.एस.		श्री वैकटेश्वरा क्लीनिक, जुमकुर जिला-572215, कर्नाटका	कर्नाटका	20.7.68	1166	30886/25852
405	डॉ० सिद्ध राम वर्मा	राम किशन	मकान न० 1162, सेक्टर-2, पंचकुला, हरियाणा	पंजाब	14.5.75	1236	31096/26029
406	डॉ० विमल कुमार वर्मा	अतर सिंह वर्मा	काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, हरियाणा शिवाजी नगर, पिलकुआ (गाजियाबाद)	हरियाणा	8.11.77	2303	31123/26051
407	डॉ० आर. के. विग	देवी दास विग	595-बी-2, बिटना रोड, पिनजोर, जिला-पंचकुला (हरियाणा)	हरियाणा	2.9.76	341	31166/26091
408	डॉ० डी.पी. विनय	श्री कृष्णन जी	51, राम मन्दिर के पास, टीला जमालपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	18.12.65	4409	31259/26171

409	डॉ० धनजीमाई गोविन्दजी विसनगरा	गोविन्दजी	रेंट. पोस्ट-मुलद, किम वर, तालुका, ओलपद, जिला-सुरत	गुजरात	10.11.66	223		31441/26284
410	डॉ० युसुफ जैन डी.	मोहमे एम.एच.	न०.1, कूनी बाजार, बीमा नगर, तिरुछी-1	तमिलनाडू	11.7.77	12324		31701/26512
411	श्री. नुगुर महानतापा	—	मकान न०.5-13, पोस्ट ऑफिस कमालपुर, टीक्यू जिला-गुलबर्गा, पिन-585313	कर्नाटका	23.7.68	1444		15746/12487
412	डॉ० बलविन्दर कुमार सूद	कृष्णन चन्द सूद	मकान न०.1054/3 तरुण वाली गली, मॉडल हाउस, जालंधर (पंजाब)	पंजाब	1.03.77	3022		27582/22905
413	डॉ० सन्त सिंह	भान सिंह	ए-6/9, वसन्त विहार, न्यू दिल्ली	पंजाब	8.9.75	2144		26912/22312
414	डॉ० हरि प्रसाद गर्ग	पूरन मल गर्ग	कासिम खान का दादा दलबाजार, लश्कर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश	29.12.65	4425		6376/5307
415	डॉ० रमेश चन्द्रा सागर	चिरंजीलाल	कैम्पस एण्ड पोस्ट मोहरी, जिला एण्ड तहसील-होशंगाबाद (मध्य प्रदेश)	मध्य प्रदेश	28.11.73	6084		22509/18444

416	डॉ० शान्ताराम हरि केतकर	—	पुष्पेन्द्रा कॉम्प्लेक्स, श्री नाका, जदगॉव, जिला—रतनागिरी	महाराष्ट्रा	27.10.61	1853		10017/8398
417	डॉ० सोढी कुलवन्त राय	देव राज सोढी	हरगोविन्द नगर, स्ट्रीट न०. 9, कुलम रोड, नवनशहर—144514 (पंजाब)	पंजाब	17.12.76	68		27414/22761
418	डॉ० हरि प्रसाद लखेरा	कली राम लखेरा	लखेरा होम्योपैथी हॉस्पिटल, पुतली गढ़, गली न०.1, जी.टी.	पंजाब	24.6.75	1828		11617/9712
419	डॉ० विजय कुमार शोरी	यश पाल राय शोरी	मकान न०.133, डब्ल्यू. न०. 4, आदर्श नगर मण्डी, गुरदासपुर	पंजाब	11.6.75	1512		25617/21179
420	डॉ० उमा दत्त शर्मा	देश बन्धु शर्मा	लोनावाल तहसील जिला—संगरूर, पंजाब	पंजाब	17.6.77	3830		25500/21090

ललित वर्मा
रजिस्ट्रार

RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai, the 28th September 2012

DBOD. No.Ret.BC.47/12.02.001/2012-13—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 24 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) as amended from time to time, in partial modification of Notification DBOD.No.Ret.BC.61/12.02.001/2009-10 dated November 19, 2009, the Reserve Bank of India hereby specifies that with effect from the fortnight beginning August 11, 2012, every Local Area Bank shall maintain in India assets as detailed in the Notification DBOD.No.Ret.BC.40/12.02.001/2009-10 dated September 8, 2009, the value of which shall not at the close of business of any day be less than 23 per cent of the total net demand and time liabilities in India as on the last Friday of the second preceding fortnight.

B. MAHAPATRA
Executive Dir.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Ahmedabad-380014, the 8th October 2012

File No. 37.PTMR.SRS.Jamalpur.SMC.12—In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the power of Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to me vide Director General order on File No.Pt.File.U.13/12/13/2005-PTMR (Med.I) dated 04.08.2008, I hereby authorised the following Doctor(s) to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with norms with effect from the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas allocated by the undersigned for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Period	Name of Centre/Place/District/State
Shriram R. Soni Part time Medical Referee	11.12.2012 to 10.12.2013	Jamalpur, Ahmedabad, Gujarat

H. P. SINGH
State Medical Commissioner

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

New Delhi, the 5th October 2012

No. 13-32/2011-CCH/CRH-Part-II Renewal 1993—The Central Council of Homoeopathy in pursuance of Regulation 9 of Homoeopathy Central Council (Registration), 1982, read with Sections 21 & 15 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), Renews the Register known as Central Council of Homoeopathy (Published in Gazette of India of 02.01.1993 and to read said Gazette with the list of removed names notified in the Gazette of India on 09.08.2008) by restoring some names in a list published in Gazette of India, dated April 7—13, 2012 and in continuation to it, some more names are being restored as being published in the Gazette of India for general information.

LALIT VERMA
Registrar

S. No.	Doctor's Name	Father's/Husband's Name	Address a) Residential b) Professional	State in which Registered and the authority granting the State Registration	Date of registration in State Register	Registration number given in the State Register	Date and reason(s) for removal from the Central Register, if any	Remarks Entries of CRH S.No. in the Principal Central Register Part-B Published on 02.01.93/S.No published in list of name of practitioners removed on 9th August, 2008
266	Dr. Mrs Harjinder Kaur	Ranjit Singh	V.- Naya Nagar, P.O. Subathu, Dist. Solan (H.P.)	H.P.	1.5.85	340		9874/8273
267	Dr. Mohan Lal Gupta	Jai Bhagwan	Khandla Wala Purana Bazar, Po. Kairana Distt., Muzafarnagar (Up), Pin 247714.	Haryana	18.11.77	2432		11667/9757
268	Dr. Mangat Ram Lamba	Bhagwan Dass	House No 2104, Sector 9, Faridabad- Haryana	Haryana	1.12.76	488		11709/9789
269	Dr. F. Noorulhaleem	Fakeer Mohammed	Perungalur Post, Pudukkottai Dist. Tamilnadu, Pin. 622203	T. N.	4.5.75	1674		16992/13590

270	Dr. Mohinder Singh Parwana	Bhagat Singh Saini	H.No 360, Tibba Sahib, Dagana Road, Hoshiyarpur (P.B.)	Punjab	16.2.76	2416	18020/14483
271	Dr. Abhimanyu Patel	Makundram Patel	At/Po. Kenadhipana Laida, Dist. Sambalpur, Orissa	Orissa	10.10.66	894	18039/14500
272	Dr. Anantrao Bharmaji Patil		At/Po. Kinaye, House No. 210, Near Ganesh Temple, Taluk & Dist. Belgaum - 590018	Karnataka	6.7.68	802	18041/14502
273	Dr. Ram Lal Patel	Murti Ram Patel	Village Sonthi, Po. Sakti, Distt. Janjgir Champa, (C.G.)	M.P.	28.2.62	2987	18072/14525
274	Dr. Syama Sundar Pathy	Arjunja Pathy	At/Po Tentalia Via-Polasara, Dist. Ganjam, Orissa	Orissa	11.1.72	48	18127/14570
275	Dr. Narinder Kaur	Bhalkhu Singh	Power House Road, Joginder Nagar, Mandi	H.P.	5.10.85	873	18358/14772

276	Dr. G. Perumal	Govindasamy Naicker V.	1/15, Kannamal Garden, Periya Mettupalayam Street, Kaladipet, Chennai - 19.	T.N.	9.5.75	1891	18441/14841
277	Dr. Paramarthalingam Ponnapan	Paramarthalingam S.	89 Parthasarathy Nagar, Old Washermenpet Chennai - 600021	T.N.	26.6.75	5342	18950/15321
278	Dr. K. Ponnaian	Kunchhu Boothathan Nadar	Vadake Akkaravilai, Kalladithattuvilai, Marayapuram, Kappukadu Po, Kanyakumari Distt., Pin. 629162	T.N.	2.5.77	11313	18972/15346
279	Dr. L. Ponnusamy	Lakshmanan Naicker	1/179, South St., Elayirampennai Po, Virudhunagar Dt., Tamilnadu - 626201.	T.N.	27.1.97	1004	18987/15353
280	Dr. Prabhakar Naresh Kumar	Mohinder Lal Prabhakar	7/180, Nangal Kotli, Gurdaspur- 143521 (Punjab)	Punjab	31.5.75	1553	19072/15425
281	Dr. M. Prabhakaran	Muthiah S.P	4A, Main Bazar Cheranmahadevi Tirunelveli (Dist.)	T.N.	4.4.77	1682	19091/15440

282	Dr. Pradhan Golak Chandra	Brundaban Pradhan	Vill- Odalanga- Po- Bantal Singh, Via- Pipli, Dist. Puri, Orissa	Orissa	10.11.64	1338		19123/15466
283	Dr. Pradhan Ramachandra	Sri Sanatan	Vill. Balisah Patna, Po. Raichakaradharpur. Dist- Puri (Orissa)	Orissa	29.8.66	864		19142/15481
284	Dr. Prem Chand	Lal Singh	Village Shahpur Indri (Karnal), H.R.	Haryana	24.2.77	758		19240/15564
285	Dr. Ravindran Pramsagar	K.V. Ravindran	874/I, Post Office Upstairs, Post Office Road Sankari Drug - 637301, T.N.	T.N.	7.4.76	291		19248/15571
286	Dr. D. Ragothaman	Duraiswamy	339 'D', Type II, Block 29, Neyveli -607807, Tamilnadu	T.N.	26.6.75	3544		19603/15880
287	Dr. Rai Daljit	Daulat Ram	New Colony, Dhariwal Dist. Gurdaspur, State Punjab	Punjab	1.3.77	2968		19662/15934

288	Dr. Hem Raj	Late. Tharia Ram	G - 8/5, Malviya Nagar, New Delhi - 17	Haryana	6.8.77	1435		19709/15976
289	Dr. S. Rajamanickam	V. Sriameettn Pillai	Chettipulam Post, Kariyapattanam - S.O. (Pin 614806), Vedaraniyam Taluk, Nagapattanam Dist.	T.N.	26.4.76	10165		19972/16200
290	Dr. S. Rajangam	Shanmugam Chettiar	Nehruji Road, Pommaya Gombanpatti, D.No 1715, Theni-Allinagaram, Theni Dt. 625531.	T.N.	16.6.75	6751		20081/16295
291	Dr. A. Ramalingam	Arumugam S.P.	8 A, Ammapet Main Road, Salem - 636001	T.N.	29.6.75	3593		20633/16778
292	Dr. A. Ramalingam	Arumuga Velar	Kallidaikurichi - 627416, Ambasamudram Taluk, Tirunelveli District, Tamilnadu.	T.N.	18.6.75	3988		20635/16780

293	Dr. Ramalingam S.	Shanmuga Mudaliar	Sri Shanmugavalli Homoeo Disp. Vayalpatty Veerapandi (Po.), Theni District, 625534, Tamilnadu	T.N.	27.1.77	1006		20693/16830
294	Dr. S. E. Ramalingam	Ekambara Mudaliar	1/98, Mettu Street, Sembakkam Chengalpattu Taluk, Kancheepuram Dist. 603108	T.N.	2.4.75	362		20695/16832
295	Dr. Ram Sarup	Kartar Chand	Vill. Nangal, Thindal, Teh- Garhshankar, P.O.- Ajnoha Dist- Hoshiarpur (PB)	Punjab	14.2.77	2872		21097/17185
296	Dr. Kapila Raghunadha Rao	K.C. Venkata Rao	Plot No 29, Kakatiyanagar, Mehidipatnam, Hyderabad Dist.	A.P.	5.8.75	3562		21703/17727
297	Dr. Ramesh Kumar Sharma	Shiv Chand Sharma	H.No B III / 368, Santan Wali Gali, Jandan Wala Road, Barnala (148101), Punjab	Punjab	6.6.75	1490		25251/20866

298	Dr. Prema Jyoti Kaur Sodhi	J. S. Sodhi	Main Bazar, Joginder Nagar, Dist. Mandi (H.P.)	H.P.	11.5.85	364		27407/22754
299	Dr. Tripathy Ramachandra	Sri Kashinath Tripathy	Plot No 120/122, Satyanagar, Kalimandir Road, Bhubaneswar Dist. Khurdha, Orissa, Pin 751007	Orissa	11.2.71	1504		29871/24964
300	Dr. Parkash Chand Verma	Joge Ram Verma	Wz 1673, II Floor, Jail Road, (Behind Kalyan Bakary), Nangal Raya, N.D.- 46	Haryana	24.2.77	937		31069/26004
301	Dr. Arun Jain	B.R. Jain	32-A, Basant Avenue, Amritsar - 143001. (P.B.)	H.P.	15.7.85	545		7839/6563
302	Dr. M. V. Raman	Manicka vallal P.	Kasthuri Palayam, Pudhuppai (PO) Tiruppur (DT) 638111	T.N.	29.06.1975	3573		20806/16930
303	Dr. R. Rathinam	Raman	P. Anaippalayam, Mudikanam (P.O.), Karur (Dt.) 630002	T.N.	29.11.1977	12635		21859/17871

304	Dr. Rabindra Nath Roy	D.P. Roi	Bhawan Sarkanda Bengoli Para, Gali No. 1, Bilaspur, 495001.	M.P.	21.02.1973	5869		21991/17989
305	Dr. Pinapala Haribhushana Rayalu	Gopala Rao P.V	3-1-14, Near Old Bus Stand, Ponnur, 522124	A.P.	1.08.1975	3482		22033/18024
306	Dr. Koti Reddy P.	Rami Reddy P.	Chebrole, Goginani Vare Street, Chebrolu (Post), Door No. 11- 38, Guntur Dist.	A.P.	25.04.1970	2719		22084/18070
307	Dr. Ujjwal Kumar Sahoo	Bhramarbar Sahoo	At./PO, Turumunga Dist. Keenjhar (Orissa), Pin - 758046	Orissa	24.01.1970	1601		22597/18529
308	Dr. Bodan Ch. Saikia		Dhemaji Homeo Sadon, P.O. Dist. Dhemaji, Assam Pin 787057	Assam	10.10.1974	1457		22666/18584
309	Dr. Erusu. Saileshwar	E.L. Reddy	Canara Bank Lane, Narayana Gude, Hyderabad - 500029	A.P.	8.05.1975	3584		22683/18600

310	Dr. Om Prakash Sehgal	Charanjit lal Sehgal	3, Preet Nagar, Ambala Cantt - 133001 (Haryana)	Haryana	16.08.1977	1744	23871/19661
311	Dr. Deen Dayal Sharma	Giridhari Lal Sharma	B 85, Shyam Nagar, Jaipur - 302019	Rajasthan	5.02.1973	2387	24765/20447
312	Dr. Harish Chandra Sharma	Dhan Rajji Sharma	Gandhi Chowk, Sujan Garh, Rajasthan, 331507	Rajasthan	12.11.1971	912	24871/20542
313	Dr. Hari Paul Sharma	V.R. Sharma	V.P.O. Tipper, Teh. Barsar, Dist. Hamirpur - 174312, H.P.	H.P.	23.09.1985	781	24873/20543
314	Dr. Satpal sharma	Shiv Charan Dass	Bagawal Gali Mukerian D/Hoshiarpur (P.B.)	Punjab	27.1.75	140	25377/20978
315	Dr. Suresh Chander Sharma	Daulat Ram Sharma	V & P.O. Mehangerwal Teh. & Dist. Hoshiarpur, (Punjab)	Punjab	12.12.1974	86	25452/21049

316	Dr. Ajaib Singh	Daya Singh	Vill. & P.O. Raekot, tajpur Chowk, Dist. Ludhiana (P.B.)	Punjab	18.07.1977	3957		25804/21348
317	Dr. Amarjit Singh	Kirpal Singh	Sree Chander Coloney, St. No. 1, Taran-Taran 143401 (P.B.)	Punjab	14/15.02.19 76	2460		25838/21377
318	Dr. Jit Singh	Tulsi Das	Vill.+Po. Dharampur, Teh. Hroli Dist.- Una (H.P.)	Punjab	29.1.75	157		26450/21916
319	Dr. Satvir Singh	Jughal Singh	Vill. & P.O. Bhainswal Kalan, Teh. Gohana, Dist. Sonipet, Haryana 131409	Haryana	24.02.1977	1027		26946/22343
320	Dr. Satya Prakash Srivastava	A.L. Srivastav	Moh. Gopal Garh, Near Ice Factory, Bharatpur (Raj.)	Rajasthan	12.12.1971	1250		27944/23241
321	Dr. Pal Chandra	Rumal Singh	C-9/92, Yamuna Vihar, Delhi - 53	Haryana	6.8.77	1400		17236/13805

322	Dr. Nagpal Subhash Chander	O.P. Nagpal	B-1/200, Janak Puri, New Delhi.	Punjab	24.6.75	1852	15851/12582
323	Dr. Angamuthuswamy M.	G.N.P. Muthusamy	TMC 46/691, Thazhathuveetil (H) Puthurkkara, Ayyanthole P.O. Thrissur - 680003, Kerala	Tamilnadu	15.04.75	1964	6647/5540
324	Dr. A. V. Prasada Rao	A. V. Ramanaiah	H.No. 12-2-828/A/23, Amba Gardens, Rehdiapatnam, Hyderabad - 500028	Andhra Pradesh	5.8.75	3560	21565/17598
325	Dr. Kapila Raghunadha Rao	K.C. Venkata Rao	Plot No. 29, Kakatiyanagar, Yehdi Patnvi, Hyderabad - 500008.	Andhra Pradesh	5.8.75	3562	21582/17615
326	Dr. Raturi Anand Swaroop	Ram Saroop Rathuri	22, Vanasthali, Ballapur, Dehradun (Opp. Pine View K.G. School) - 248001.	Haryana	8.11.77	2214	21931/17935
327	Dr. Jagdish Kumar Rohilla	Ganpatti Sahai Rohilla	Rohilla Scientific Works, Hill Road, Ambala Cantt.	Haryana	2.9.1976	249	22230/18197

328	Dr. A. Sathasivam	Angappa Mudali P.	New No. 167, Old No.92-B, Kumaran Street-1, Salem - 636001.	Tamilnadu	21.6.75	8981		23519/19344
329	Dr. K. Selvaraj	Karuppa Gounder	6/13 Palani Chams Nagar, Ist Cross St, Reservline, Madurai - 14.	Tamilnadu	16.5.77	11522		23961/19740
330	Dr. Babu Lal Shrama	Lochan Lal Sharma	Vill. Sarai, PO. Pindrai, Dist. Mandla.	Madhya Pradesh	2.5.61	2095		24623/20326
331	Dr. Amresh Shrama	B. Sharma	Jairam Bhawan, Cemetary Road Sanjauli, Shimla - 171006 (H.P.)	Himachal Pradesh	15.7.85	542		24703/20392
332	Dr. Chander Sharma	S.L. Sharma	1872/A-1 Ashok Marg, Anna Sagar Link Road, Ajmer (Rajasthan)	Rajasthan	10.11.21	305		24728/20416
333	Dr. Balmukand Sharma	Paras Ra.	Vill. Sakri, PO. Rehan, Teh. Nurpur, Dist. Kangra. (H.P.)	Himachal Pradesh	5.11.85	946		24637/20339
334	Dr. Dharm Prakash Sharma	Sh. Dhani Ram	Vill. Siwaya, PO. Modipuram (Meerut)	Haryana	18.11.77	2372		24787/20467

335	Dr. Inderjeet Sharma	C.B. Sharma	623, Sericli Colony, Behind Manas Hotel, Jawahar Nagar, Jaipur - 302004.	Rajasthan	10.11.71	412		24896/20563
336	Dr. Kanwal Kumar Sharma	M.R. Aery	VPO. Charatgarh, Teh. & Distt. Una, H.P.	Himachal Pradesh	28.6.85	517		24956/20615
337	Dr. Lal Chand Sharma	G.V. Sharma	C/o Vyas Medical Dispensary (Suraj Pole Gate Road), PO. Jhalrapatan, Dist. Jhalawar (Raj.) - 326023.	Rajasthan	10.11.71	491		25013/20662
338	Dr. O.P. Sharma	Nand Lal	76 F, New Model Colony, Ambala City - 134003. Haryana	Haryana	24.2.77	680		25116/20753
339	Dr. Pritam Chand Sharma	Manohar Lal	Vill+Po. Jahu - 176048. H.P.	Himachal Pradesh	14.3.84	30		25186/20810
340	Dr. Raghunath Sahai Sharma	Pt. Prem Singh	107-A, Guru Nanak Colony, Sangrur. Punjab	Punjab	10.2.75	270		25208/20829

341	Dr. Sadajit Ram Sharma	Anant Ram Sharma	House No. 281, Sector- D, Defence Colony, PO. Kallerheri, Ambala Cantt. - 133001.	Punjab	1.6.77	3783		25352/20956
342	Dr. Satinder Paul Sharma	Durga Das Sharma	H.No. 3096, Moh. Srail Raj Putan, PO. Nakodar, Dist. Jalandhar, Punjab.	Punjab	24.5.77	3625		25373/20975
343	Dr. Sham Lal Sharma	Pala Ram	A-204, (A-Block), G.T. Road, New Amritsar, Amritsar City (Punjab)	Punjab	26.6.75	2329		25393/20993
344	Dr. Shyam Sundar Sharma	Shiv Bhagwan Sharma	Flat No. 104, 1st Floor, Jagannath Apartment, Choudhury Bazar, Cuttack - 753001. Odisha	Haryana	8.11.77	1935		25424/21023
345	Dr. Sudershan Lal Sharma	Ram Lal Sharma	Ram Kishan Homoeo Clinic, 12/8 Bangla Street, Mandi (H.P.)	Haryana	5.4.78	2790		25447/21044

346	Dr. Harendra Kr Shrivastava		Bhajanka Market, Christian Basti, Guwahati-781005, Assam.	Assam	20.8.76	1788		25629/21189
347	Dr. Dal Singh	Moti Ram	Vill. & Po. Golpura, Dist. Kurukshetra, Haryana.	Haryana	24.2.77	815		26045/21562
348	Dr. Dharam Singh	Dhani Ram	Vill. Been/Kuthwar, Po. Kalahod, Sunder Nagar Mandi, (H.P.)	Himachal Pradesh	11.3.85	176		26089/21601
349	Dr. Ganga Singh	Inder Singh	H.No. 11, V.&Po. Suketri, Distt. Panchkula, Haryana.	Haryana	2.9.76	232		26122/21634
350	Dr. Gurcharan Singh	Aya Singh	Vill+Po. Narwana, Distt. Jind, Haryana - 126116.	Haryana	29.12.75	33		26170/21676
351	Dr. Gurdeep Singh	Mihan Singh	Vill. Sarala Khurd, Po. Sarala Kallan, Teh. Rajpura, Distt. Patiala.	Haryana	8.11.77	2098		26179/21683

352	Dr. Hari Singh	Sadhu Singh	H.No. B-XX-1732 New Prem Nagar, Old No. BXX-1533/2, Ludhiana, Punjab.	Punjab	12.2.75	885		26306/21791
353	Dr. Jagdish Singh	Sewa Singh	Vill.&Po. Bankhaura, Teh. Malerkotla, Distt. Sangrur, Punjab.	Punjab	11.1.78	4775		26380/21853
354	Dr. Joginder Singh Azad	Surain Singh	Guru Nanak Homoeo Clinic Block Road, Puranpur, Distt. Pilibheet, 262122.	Punjab	1.3.77	3408		26457/21923
355	Dr. Labh Singh	Naurang Singh	VPO. Manuran, Teh. Sunam, Dist. Sangrur, Punjab.	Punjab	26.12.77	4732		26579/22028
356	Dr. Lal Singh	Moti Singh	VPO. Bahadurpur (Sangrur) P.B.	Punjab	16.8.77	4298		26591/22040
357	Dr. Mahavir Singh Panwar	Lura Singh	Dr. Mahavir Singh Panwar Homoeo Clinic RZ-J Block-21/261, West Sagarpur, New Delhi - 110046.	Haryana	6.2.78	2744		26597/22044

358	Dr. Man Singh Guleria	Suram Chand	Vill. & Po. Dole, Teh. Javali, Distt. Kangra, H.P.	Himachal Pradesh	29.9.85	818		26623/22064
359	Dr. Sardara Singh	Jiwan Singh	Vill. Nadiali, Po. Dharamgarh, Teh. & Dist. Mohali (Punjab)	Punjab	11.3.78	4951		26930/22328
360	Dr. Sewa Singh	Joginder Singh	H. No. 2, Street No. 1, New Suraj Ganj-West, Nakoder Road, Jalandhar - 144001.	Punjab	29.4.75	1222		26966/22362
361	Dr. Sher Singh Bharti	Soju Ram	Vill. Tarwai, Po. Beena, Teh. Sadar, Distt. Mandi (H.P.)	Himachal Pradesh	22.4.85	231		26980/22375
362	Dr. N. S. Sivakumar	S. Subbiah	# 51-6/96, Jawahar Street, Ramnad Distt, Paramakudi - 623707, Tamilnadu.	Tamilnadu	20.3.76	9777		27266/22627
363	Dr. P. Sivashanmugasu ndaram	Perumal P.	Vaithiar Thottam, Chandrasekarapuram 637408, Rasipuram Tk, Namakkal Dt., Tamilnadu.	Tamilnadu	30.5.77	12114		27365/22718

364	Dr. Daulat Ram Verma	R. S. Verma	V&Po. Jhungi, Sub Tehsil Nihri, Distt. Mandi, H.P. 175031	Himachal Pradesh	15.3.84	53		31008/25955
365	Dr. D.S.V. Narasimha Vasudeva Verma	Satyanarayan Raju	Po. Khandavalli, Peravali Mandal, W.G. Dt. A.P. 534330	Andhra Pradesh	15.4.71	2844		31058/25993
366	Dr. Ranchand Verma	Chirajini Lal Verma	Oah pura, Mathura Road (Hathras)	Haryana	8.11.77	2269		31085/26018
367	Dr. Maruthu Vetrivel	Marudu Pillai V.	37, R.M.S. Colony, Mathupatti, Madurai - 3	Tamilnadu	17.5.77	11536		31129/26056
368	Dr. Iqbal Krishan Vig	Devi Dass Vig	25, Brij Nagar, Jallandhar City, 144008	Punjab	27.6.75	1883		31161/26087
369	Dr. Vyas Kailash Chandra	Lakshmi Narayan	Vill. & Po. Ledgaon, Teh. Sardarpur, Distt. Dhar (M.P.)	Madhya Pradesh	15.3.71	5319		31471/26311
370	Dr. Mahabir Prasad Wadhwa	Kanshi Ram	H.No. 103/6 Bawani Khara, Distt. Bhiwani, Haryana.	Haryana	30.12.76	583		31494/26329

371	Dr. Vinod Kumar Sharma	Ishwar Datta Sharma	C/o L.I.C. of India, E-3, Sector-1, Noida - 201301	Haryana	18.11.77	2531		11017/9265
372	Dr. Mallick Answer Ahmed	Badiar Jaman Mallick	Vill.+Po. Kumir Morah, PS. Chaditalai, Dist. Hooghly.	Haryana	7.12.77	2563		12224/10240
373	Dr. B. Mehaboob John	Baba J.	132/301, New west st, Line Road, Gugat, Salem - 63006.	Tamil Nadu	12.5.77	1580		13097/11019
374	Dr. Satya Pal Rattan	Bishan Chand	15-A, Jhang Appartment, Sector - 13, Rohini, Delhi - 110085.	Haryana	2.9.76	374		21952/17954
375	Dr. V. Selvaraj	Veerasamy P.	2/21, Pullapanaickanur Village, Anaipalayam Post - 637401, Andagur Via, Rasipuram Tk, Namakkal Dt.	Tamil Nadu	30.5.77	12115		23986/19763
376	Dr. Lakshmi Nath Sarma		C/o Amaya Homoeo Clinic, Near Rupnagar Post Office, Guwahati - 781032, Assam	Assam	28.7.75	1564		25007/20659

377	Dr. Om Prakash Sharma	Lt. Mela Ram Sharma	Dr. O.P. Sharma Clinic, Anil Bhawan, Fajadih, Raipur (C.G) 492001	Madhya Pradesh	2.2.62	4264		25123/20760
378	Dr. Shrikrishana Sharma	Ranjilal Sharma	42, Keshava Nagar, Alwar (Rajasthan) - 301001	Rajasthan	20.4.72	1500		25419/21018
379	Dr. Subhash Chander Sharma	Bishambar Dass Sharma	H.No. 122, Ward 8, Krishna Gali, Mukerian - 144211, Punjab.	Punjab	8.8.77	4284		25444/21041
380	Dr. Bakhshish Singh	Amar Singh	H.No. B-34/120, Moh. Raika, Kapurthala (P.B.)	Punjab	27.6.75	2074		25918/21451
381	Dr. Balbir Singh	Sunder Singh	Kanwar Homoeo Dispensary, 243/4, Pili Road, Patiala	Punjab	8.9.77	4549		25929/21461
382	Dr. Baldev Singh	Mukand Singh	Vill. Gurusar, Teh. Giddarbaha, Dist. Mukatsar-152112, Punjab	Punjab	12.5.75	1227		25951/21481
383	Dr. Balwinder Singh	Kartar Singh	Vill. & Po. Lehal, Via Sihar 141117, Dist. Ludhiana, Punjab	Punjab	13.2.75	956		25969/21498

384	Dr. Basakha Singh	Bhag Singh	VPO - Bhai Rupa, Dist. Bhatinda (P.B.)	Punjab	26.3.75	1869	25976/21505
385	Dr. Bawa Ajit Singh	Bawa Lachhman Singh	HM - 116, Sector 60 (3B1), S.A.S. Nagar - 160059, Chandigarh	Punjab	22.12.75	2300	25978/21507
386	Dr. Bhagwant Singh	Gurbas Singh	Bhagwant Homoeo Clinic, H.No. 207, V.& P.O. Bhasour, Teh. Dhuri, Distt. Sangrur.	Punjab	5.8.77	4165	25993/21520
387	Dr. Daljit Singh	Bachan Singh	Vill. Iserheri, PO. Kharindwa, Distt. Kurukshetra.	Haryana	5.4.77	1053	26061/21576
388	Dr. Darshan Singh	Santa Singh	H.No. 1908, Sector 34- D, Chandigarh, 160034	Haryana	12.5.77	1108	26071/21584
389	Dr. Gurbax Singh	Sunder Singh	V.P.O. Jallha, Teh. Distt. Fatehgarh Sahib	Punjab	13.2.75	918	26155/21661
390	Dr. Gurcharan Singh	Kartar Singh	Charan Homoeo Clinic, Near Mata Rani Mandir and Gushala Road, Raikot, Distt. Ludhiana (P.B.)	Punjab	31.8.77	4489	26167/21673

391	Dr. Joginder Singh Sidhu	Bant Singh	VPO - Pharwahi, Teh.&Distt. Barnala (Punjab)	Punjab	2.4.75	796		26474/21939
392	Dr. Mohinder Singh Dhaliwal	Gurdial Singh	C/o Dhaliwal Homoeopathic Clinic, Thind Patti, Near Bus Stand, Dhuri Road, Sherpur, Distt. Sangrur (Punjab) 148025	Punjab	2.4.75	792		26673/22109
393	Dr. Mukand Singh	Dhanna Singh	VPO. Ghamour, Teh.Balachour, Distt. Nawan Shahar (Punjab)	Punjab	9.3.78	4920		26693/22126
394	Dr. Naranjan Singh	Thakor Singh	VPO. Behak Khas, Teh. Fazilka, Distt. Ferozepur.	Punjab	5.6.75	1461		26712/22141
395	Dr. Narinder Singh	Gurmukh Singh	J-89, Kirti Nagar, New Delhi	Haryana	6.8.77	1553		26722/22148
396	Dr. Pancham Singh	Pritam Singh	Vill.-Alal Majra, PO.- Khan Pur Gandian, Teh.-Rajpura, Via. Kauli	Punjab	3.2.75	237		26753/22175

397	Dr. L. Subramanian	Loganathan	Nalloor Palayam, Bandarakottai-Post, Panruti-Taluk, Cuddalore -Dist.	Tamil Nadu	25.6.75	4457		28217/23491
398	Dr. P.S. Sundaram	Subramaniya Iyer P.K.	Plot No.2, Sakthy Nagar, Kakalur Estate- Kakalur, Tiruvallore- Dt. 602003	Tamil Nadu	20.7.75	4085		28632/23869
399	Dr. Joginder Pal Syal	Lachmi Narain Syal	H.No. 1579, Old Gadda Khana, Near Arya Samaj, Patiala, Punjab	Punjab	8.8.77	4225		28955/24157
400	Dr. Fakar Deen Teli	Phuse Khan Tali	VPO.- Deshnok, Via/Tehsil- Deshnok, District- Bikaner (Rajasthan)	Rajasthan	10.11.71	56		29014/24207
401	Dr. Vadivel A.	Arumuganaicker K.	25/24, Mission St. Boyar Lane, Tirupur - 641004, Tirupur Dt.	Tamil Nadu	26.6.75	5236		30334/25364
402	Dr. Vashist Marchoo Ram	Sohanu Ram	Nikhil Dham' Vill. Seogi, PO. Pandoh, Distt. Mandi - 175124, H.P.	Himachal Pradesh	29.4.85	289		30374/25401

403	Dr. G. Venkatakrishnan	Gopalaratnam V.	New No. 17, C.P. Kovil Street, Mylapore, Chennai - 600004, Tamilnadu.	Tamil Nadu	24.3.75	56	30817/25795
404	Dr. Venkataramanap pa R.S.		Sri Venkateshwara Clinic, Jumbur Dist. - 572215, Karnataka.	Karnataka	20.7.68	1166	30886/25852
405	Dr. Sadhu Ram Verma	Ram Kishan	H.No. 1162, Sector II, Panchkula, Haryana.	Punjab	14.5.75	1236	31096/26029
406	Dr. Vimal Kumar Verma	Atar Singh Verma	Council of Homoeopathic System of Medicine, Haryana' Shivaji Nagar, Pilkhuwa (GZB)	Haryana	8.11.77	2303	31123/26051
407	Dr. R.K. Vig	Devi Dass Vig	595-B-II, Bitna Road, Pinjore, Dist. Panchkula (Haryana).	Haryana	2.9.76	341	31166/26091
408	Dr. D.P. Vinay	Shri Krishan Ji	51, Near Ram Mandir, Teela Jamalpura, Bhopal, M.P.	Madhya Pradesh	18.12.65	4409	31259/26171

409	Dr. Dhanjibhai Govindji Visnagra	Govindji	At.Post- Mulad, Kim Wr: Taluka: Ol Pad, Dist. Surat.	Gujarat	10.11.66	223	31441/26284
410	Dr. Yusuf Jain D.	Mohame M.H.	No.1, Kooni Bazaar, Beema Nagar, Trichy -1.	Tamil Nadu	11.7.77	12324	31701/26512
411	Sr. Nugur Mahantappa	—	H.No. 5-13, Po. Kamalapur, Tq.Dist. Gulbarga, Pin. 585313, (Karnataka)	Karnataka	23.7.68	1444	15746/12487
412	Dr. Balvinder Kumar Sood	Krishan Chand Sood	H.No. 1054/3 Tarun Wali Gali, Model House, Jalandhar (PB)	Punjab	1.03.77	3022	27582/22905
413	Dr. Sant Singh	Bhan Singh	A-6/9, Vasant Vihar, New Delhi.	Punjab	8.9.75	2144	26912/22312
414	Dr. Hari Prasad Garg	Puran Mal Garg	Kasim Khan Ka Dada Dalbajar, Lashkar, Gwalior (M.P.)	Madhya Pradesh	29.12.65	4425	6376/5307
415	Dr. Ramesh Chandra Sagar	Chironjilal	Champus & Post. Mohari, Distt. & Teshil - Hoshangabad, (M.P.)	Madhya Pradesh	28.11.73	6084	22509/18444

416	Dr. Shantaram Hari Ketkar	—	Pushpendra Complex, Shere Naka, Zadgaon, Dist. Ratnagiri (Maharashtra State)	Maharashtra	27.10.61	1853		10017/8398
417	Dr. Sodhi Kulwant Rai	Dev Raj Sodhi	Hargobind Nagar, Street No. 9, Kulam Road, Nawanshahr - 144514 (Punjab)	Punjab	17.12.76	68		27414/22761
418	Dr. Hari Prasad Lakhera	Kali Ram Lakhera	Lakhera Homoeopathy Hospital, Putli Garh, Gali No. 1, G.T. Road, Amritsar - 143001.	Punjab	24.6.75	1828		11617/9712
419	Dr. Vijay Kumar Shorie	Yash Pal Rai Shorie	H.No. 133, W.No. 4, Adarsh Nagar Mandi, Gurdaspur.	Punjab	11.6.75	1512		25617/21179
420	Dr. Uma Dutt Sharma	Desh Bandhu Sharma	Longowal Teh. Dist. Sangrur, Punjab.	Punjab	17.6.77	3830		25500/21090

LALIT VERMA
Registrar

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012